



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2007/माघ 5, 1928

No. 82]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2007/MAGHA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

का.आ. 85(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के 42.000 कि.मी. से 62.961 कि.मी. (पिंजोर-कालका-परवानू बाईपास सहित जीरकपुर-परवानू सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, पंचकुला को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 42.000 कि.मी. से 62.961 कि.मी. तक जिरकपुर से परवानु खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम/एच. बी. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल
							कनाल—मरला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पंचकुला	पंचकुला	रैली-369	16//17	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--5
				16//23	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--8
				16//24/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--11
				16//24/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--10
				16//28	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	1--13
				18//4	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--18
				27//15	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	1--2
				26//16	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--4
				27//17	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--12
				27//23	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--17
				27//24	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--9
				28//2/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--13
				28//2/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--17
				28//3	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--15
				28//8	निजी	गैर मुमकिन	0--3
				28//9	निजी	गैर मुमकिन	0--2
				28//10	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	1--16
				28//11	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	1--4
				28//12/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--13
				28//12/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--19
				28//20/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--5
				28//20/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--2
				28//26	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--8
				29//1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--3
				29//2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--17
				29//3	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--6
				29//9	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--9
				29//10	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0--14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				29/11	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-5
				30/16			कनाल -मरला
				30/14/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-7
				30/15	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-12
				30/16/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-17
				30/16/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-9
				30/16/3	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-5
				30/16/6	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-2
				30/17/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-3
				30/17/2	निजी	गैर मुमकिन	1-4
				30/18	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-5
				30/22	औद्योगिक क्षेत्र	गैर मुमकिन	1-16
				30/24/1	औद्योगिक क्षेत्र	गैर मुमकिन	2-0
				30/25/2	सरकारी	गैर मुमकिन	7-6
				32/3	सरकारी	गैर मुमकिन	0-0
				26	सरकारी	गैर मुमकिन	1-0
				56	सरकारी	गैर मुमकिन	0-10
				57	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	16-13
				68/68	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	88-18
				107	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	0-2
				107	सरकारी	गैर मुमकिन	0-2
						कुल	140-11
							कनाल -मरला
2	पंचकुला	पंचकुला	फतेहपुर -367	1/26	हुड्डा	गैर मुमकिन	3-11
				26/1/1	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-3
				20	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-6
				2/22	हरियाणा राज्य	बाग आदी	0-9
				5/1	हरियाणा राज्य	गैर मुमकिन	0-16
				10	हरियाणा राज्य	गैर मुमकिन	0-7
				6/13	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-12
				15	हुड्डा	गैर मुमकिन	1-14
				26	हुड्डा	गैर मुमकिन	1-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7/12	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-10
				33	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-2
				34	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-2
				36	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन सड़क	28-6
				39	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-4
						कुल	38-16
							कनाल - मरला
3	पंचकुला	पंचकुला	महेशपुर - 368	1/6	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-6
				7	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-2
				14	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				15	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-19
				16/1	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	1-3
				23	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-15
				1/26	निजी	गैर मुमकिन झुंड	2-0
				8/3	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-16
				4	निजी	गैर मुमकिन झुगियां	1-10
				8/7	निजी	गैर मुमकिन	0-2
				8	हुड्डा	गैर मुमकिन	0-4
				9/25	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन क्रेसर	0-7
				10/2	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-2
				9	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				11	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-2
				10/26	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन जखीरा	0-5
				19/4	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन	0-4
				7/7	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-2
				10/26	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन जखीरा	0-13
				26	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0-17
				27	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन फर्म	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				28	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन फर्म	0-2
				36	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				37	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				38	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				39	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				42	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-6
				43	शामलात भूमि	गैर मुमकिन सड़क	1-7
				48/1	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				48/2	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				49	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-6
				50	शामलात भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-10
				51	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				52	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				53	निजी	गैर मुमकिन घर	0-8
				62	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-11
				84/1	निजी	गैर मुमकिन घर	0-4
				84/2	निजी	गैर मुमकिन घर	1-2
				97	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0-1
				99	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0-1
						कुल	16-15
							बीगे-बीसवे
4	पंचकुला	पंचकुला	देवी नगर-384	177	केन्द्रीय सरकार	रेलवे	8-1
				178	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	43-7
				179	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-16
				182	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-4
				183	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-13
				184	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	1-0
				204	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-4
				205	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-2
				206	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				207	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--16
				215	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--14
				255	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--1
				263	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--1
				277	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--2
				278	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--2
				279	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--7
				375	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--3
				384	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--3
				385	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0--1
						कुल	56—17
							कनाल —मरला
5	पंचकुला	पंचकुला	माजरी — 385	26/2	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--2
				10/26	हुड्डा	गैर मुमकिन	3--5
				27	निजी	गैर मुमकिन	0--4
				27/2/1	हुड्डा	गैर मुमकिन	1--16
				27/2/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	1--13
				27/2/3	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--19
				12/27	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--6
				28	निजी	गैर मुमकिन	0--2
				23	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	36--16
				23	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन	3--9
				24	नगरपालिका	गैर मुमकिन	2--8
				25	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन	2--9
				44	हुड्डा	गैर मुमकिन	0--2
						कुल	53—11
							बीगे—बीसवे
6	पंचकुला	पंचकुला	खरक मंगोली 338	56	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रेलवे लाईन	0--8
				58	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--6
				59	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--8
				60	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--8
				62	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				303/166/4	निजी	गैर मुमकिन घर	0-4
				130	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	7-3
				171	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-19
				172	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	59-6
				173	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-19
				174	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-8
				175	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				176	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				177	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-10
				178	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-4
				179	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-13
				180	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				181	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-8
				182	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-4
				183	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				184	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				185	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				186	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				187	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-4
				188	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-5
				189	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				190	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				191	निजी	गैर मुमकिन चुन्ना भट्टी	0-1
				192	निजी	गैर मुमकिन घर	0-3
				193	निजी	गैर मुमकिन बरानी	0-7
				194	निजी	गैर मुमकिन बरानी	0-3
				468/445/309/ 197/3/2/2/	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन हुड्डा	0-1
				468/445/2/2/2 /2/1/9	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0-1
							बीगे-बीसवे
				468/445/3/2/2 /1/1/4	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				468/445/3/2/2 /2/1/4/2	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--1
				468/445/3/2// 2/2/1/1/1	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--1
				468/445/3/2/2 /2/1/4/1	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--1
				468/445/3/2/2 /2/1/3	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--1
				468/445/3/2// 2/2/1/2	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--1
				468/445/2/2/2 /10	हरियाणा सरकार	हुड्डा	0--6
				198	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन	0--5
				199	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन	1--18
				487/330/312/ 200	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--5
				488/330/312/ 200	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--6
				489/330/312/ 200	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--13
				497/330/312/ 200/1/4	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--2/1/2
				499/330/312/ 200/1/1/2	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--4/1/2
				441/309/197	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--2
				442/309/197	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--4
				443/309/197	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--2
				444/309/197	नीजी	गेर मुमकिन प्लाट	0--2
				242	केन्द्रीय सरकार	गेर मुमकिन सडक	40--13
				243	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	3--2
				245	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0--9
				246	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	4--14
				259	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	2--4
						कुल	132--17
							बीगे-बीसवे
7	पंचकुला	पंचकुला	सुरजपुर-389	602/23	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--1
				603/23	केन्द्रीय सरकार	छावनी	5--1
				25	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--9/1/2
				26	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--15
				27	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0--18



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				28	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6
				29	केन्द्रीय सरकार	छावनी	1-9
				30	केन्द्रीय सरकार	छावनी	1-14
				32	केन्द्रीय सरकार	छावनी	3-5
				90	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6
				92	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-3
				95	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6
				97	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6/1/2
				100	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6
				101	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4
				106	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-7
				125	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-7
				126	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-15
				127	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4
				128	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-16
				134	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-9
				136	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-5
				606/137/138	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-6
				139	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-3
				140	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-1
				145	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4
				148	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-2
				162	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-1/2
				168	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4
				172	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4/1/2
				175	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-12
				176	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-1
				180	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-4/1/2
				181	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-3
							बीगे-बीसवे
				182	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-2
				187	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-3
				188	केन्द्रीय सरकार	छावनी	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						कुल	21—7/1/2
							बीगे-बीसवे
8	पंचकुला	पंचकुला	दरा खरोनी 390	882	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				883	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-4
				888	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				890	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				905	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1
				906	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-5/1/2
				907	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				909	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-4
				910	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				911	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				912	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				914	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				917	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				918	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0-7/1/2
				919	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	1-5
				921	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0-2
				922	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0-16
				923	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0-7
				924	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-16
				925	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				926	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-5
				927	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				928	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				930	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1/1/2
				931	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-10
				933	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-7
				934	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				935	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-9
				936	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				937	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-11
				938	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				942	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-5
				943	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	3-0
							बीगे-बीसवे
				945	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	71-4
				949	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-8
				950	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-17/1/2
				980	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	2-2
				1007	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-4
				1128/1018	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-1
				1129/1018	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-13
				1019	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2/1/2
				1020	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-8
				1021	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-7
				1023	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-10/1/2
				1024	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-7
				1029	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-8
				1030	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-7
				1031	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				1032	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-1
				1036	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-11
				1037	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	2-9
				1041	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-8
				1044	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	2-8
				1045	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-8
				1174/1060	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-18
				1062	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				1065	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-1/1/2
				1066	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-3
				1067	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	1-8
				1068	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6
				1069	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-14
				1070	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1172/660	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0--10
						कुल	110—7/1/2
							बीगे-बीसवे
9	पंचकुला	पंचकुला	चण्डीमन्दिर-391	139	निजी	बंजर	0--3
				148	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन सड़क	80--2
				152	निजी	गैर मुमकिन नदि	0--2
				153	निजी	कदीम	0--3
				157	निजी	कदीम	0--18
				159	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन पहाड़	0--3
				160	निजी	बंजर	0--8
				161	निजी	कदीम	0--8/1/2
				162	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--1
				163	निजी	गैर मुमकिन घर	0--14
				164	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--14
				165	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-15
				166	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--3
				167	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	1--4
				172	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	1--2
				173	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--10
				176	निजी	गैर मुमकिन फैक्टरी	0--1
				177	निजी	गैर मुमकिन	1--12
				178	निजी	गैर मुमकिन बाग	2--2
				203	निजी	गैर मुमकिन चोवा	0--3
				204	निजी	गैर मुमकिन चोवा	0--15
				205	निजी	गैर मुमकिन घर	0--1
				207	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--15
				210	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--16
				214	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--7
				510/225	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	7--16
				226	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	1--10
				227/1	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन खम्बा	0--1
				227/2	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन खम्बा	0--1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				227/3	निजी	गैर मुमकिन घर	0-3
				227/4	निजी	गैर मुमकिन घर	0-3
				228/1	निजी	गैर मुमकिन दुकान	0-4
							बीगे-बीसवे
				228/2	निजी	गैर मुमकिन घर	0-3
				229	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-12
				230	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-6
				231	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-5
				232/1	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-3
				232/2	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-2
				233	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	1-3
				247	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				262	निजी	कृषि भूमि	1-14
				263	निजी भूमि	कृषि भूमि	0-9
				264	निजी भूमि	कृषि भूमि	0-8
				578/537/332	निजी भूमि	गैर मुमकिन दरद	0-7/1/2
				383	निजी भूमि	गैर मुमकिन घर	0-4
				384	निजी	गैर मुमकिन भट्टीयां	0-9
				385	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-4
				388	गैर मुमकिन प्लाट	कृषि भूमि	0-2
				389	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-1
				390	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-5
				391	निजी भूमि	कृषि भूमि	0-5
				392	निजी भूमि	गैर मुमकिन घर	0-4
				393	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन पेट्रोल पम्प	0-8
				402	सरकारी भूमि	पी. डबलू. डी. बी. एंड आर. डबल्यू	0-4
				403	निजी	गैर मुमकिन घर	0-9
				404	निजी	गैर मुमकिन भट्टीयां	0-3
				405	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-9
				406	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-2
				478	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	2-17
				485	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				486	केन्द्रीय सरकार	गैर मुमकिन छावनी	0-16/1/2
				487	केन्द्रीय सरकार	रेलवे	1-10
				488	केन्द्रीय सरकार	रेलवे	3-1
				489	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	1-19
						कुल	123-11/1/2
							बीगे-बीसवे
10	पंचकुला	कालका	रामपुर सूरी 106	21	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-11
				34	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1/2
				37	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				172	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-11
				181	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन चौकी	0-4
				213	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-1
				214	शामलात	गैर मुमकिन रास्ता	0-0
				215	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-2
				221	शामलात	गैर मुमकिन रास्ता	0-1
				222	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-2/1/2
				229	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0-6
				230	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				234	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-12/1/2
				235	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-15
				333	निजी	कृषि भूमि	0-18
				335	निजी	कृषि भूमि	0-18
				336	शामलात	गैर मुमकिन रास्ता	0-5
				337	निजी	कृषि भूमि	0-16
				338	निजी	कृषि भूमि	0-10
				339	निजी	कृषि भूमि	0-6
				343	निजी	कृषि भूमि	0-8
				347	निजी	कृषि भूमि	0-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				348	निजी	कृषि भूमि	0-6/1/2
				349	निजी	कृषि भूमि	0-3
				352	निजी	कृषि भूमि	0-1
				353	निजी	कृषि भूमि	0-2
				354	निजी	गैर मुमकिन होटल	0-2
				356	निजी	गैर मुमकिन होटल	0-3
				359/1	निजी	गैर मुमकिन घर	0-2
				359/2	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	बी 0 - बी 2
				359/3	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0-3
				359	निजी	गैर मुमकिन घर	0-8
				361	निजी	गैर मुमकिन बंजर कदीम	0-4/1/2
				362	निजी	कृषि भूमि	0-4
				363	निजी	कृषि भूमि	0-3/1/2
							बीगे-बीसवे
				363	निजी	कृषि भूमि	0-2
				364	निजी	कृषि भूमि	0-3
				365	निजी	कृषि भूमि	0-15
				367	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन ढाबा	0-5
				524/466	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन घर	14-13
				562/526/469	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबलू. डी. बी एंड आरद्ध	0-3
						कुल	27-3
							बीगे-बीसवे
11	पंचकुला	कालका	मिल्क -111	4	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-8
				15	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-7
				16	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				17	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				18	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				19	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-8
				39	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				40	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-2
				42	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				43	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				44	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-0
				60	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-2
				61	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-0
				64	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-7
				65	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-2
				71	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				72	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-2
				76	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-6
				82	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-9
				83	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-13/1/2
				86	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3/1/2
				87	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				99	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-12
				100	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-2
				101	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				102	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4/1/2
				111	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				116	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-9
				117	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-12
				118	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-11



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				121	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-7
				122	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-11
				123	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-11
				125	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-10
				126	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-8
				127	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-8
				130	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-5
				131	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन सड़क दिल्ली से शिमला	75-5
				135	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-17
				136	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-2
				137	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				138	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				139	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-5
				141	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-12
				142	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				143	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-3
				144	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-15
				145	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				149	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-10
				150	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-12
				153	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-5
				156	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-5
				157	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				161	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-15/1/2
				162	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-7
				163	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				164	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-13
				165	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-16
				167	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				169	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-17
				173	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				174	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				175	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				176	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				177	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				186	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				187	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				188	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				189	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				190	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-1
				196	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-6
							बीगे-बीसवे
				197	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-5
				198	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-6
				200	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-0
				201	हरियाणा सरकार	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-7/1/2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				202	हरियाणा सरकार	गैर मुनिकिन एच. एम. टी.	2-15
				205	हरियाणा सरकार	गैर मुनिकिन एच. एम. टी.	5-14
						कुल	108-4/1/2
							बीने-बीसवे
12	पंचकुला	कालका	बमिलाना-112	73	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	0-3
				74	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	0-1
				76	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	5-15
				77	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	1-15
				78	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	0-15
				79	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	4-10
				80	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	17-5
				81	हरियाणा सरकार एच. एम. टी.	एच. एम. टी.	0-1
						कुल	30-5
							बीने-बीसवे
13	पंचकुला	कालका	पिंजौर-113	368	निजी	कृषि भूमि	1-13
				369	पंचायत भूमि	शामलात भूमि	0-6
				370	निजी	कृषि भूमि	2-16
				372	निजी	कृषि भूमि	2-4
				373	निजी	कृषि भूमि	2-14
				375	निजी	कृषि भूमि	2-18
				376	निजी	कृषि भूमि	0-13
				377	निजी	कृषि भूमि	1-1
				378	सरे आम	गैर मुनिकिन रास्ता	0-2
				379	निजी	कृषि भूमि	0-3
				380	केंद्रीय सरकार	गैर मुनिकिन रास्ता	0-14
				381	निजी	कृषि भूमि	0-17
				382	निजी	कृषि भूमि	0-14
				397	निजी	कृषि भूमि	1-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				398	निजी	कृषि भूमि	1-10
				401	निजी	कृषि भूमि	0-19
				402	निजी	कृषि भूमि	0-14
				403	निजी	कृषि भूमि	0-15
				404	निजी	कृषि भूमि	0-10
				406	निजी	कृषि भूमि	0-19
				407	निजी	कृषि भूमि	0-9
				408	पंजाग वाकफ बार्डर	पंजाग वाकफ बार्डर	0-16
				413	निजी	कृषि भूमि	0-1
				412	शामलात भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0-9
				414	पंजाग वाकफ बार्डर	पंजाग वाकफ बार्डर	0-6
				415	पंजाग वाकफ बार्डर	पंजाग वाकफ बार्डर	1-0
				416	पंजाग वाकफ बार्डर	पंजाग वाकफ बार्डर	1-0
				417	निजी	कृषि भूमि	0-5
				418	निजी	कृषि भूमि	1-12
				421	निजी	गैर मुमकिन बाग चाही	0-12
				432	हरियाणा सरकार	कृषि विभाग	11-11
				433	निजी	गैर मुमकिन हुड्डा रोड़	0-5
				434	निजी	गैर मुमकिन कपडा रगने की जागा	0-5
				435	नगरपालिका पिजौर	मशान घाट	3-5
				483	निजी	कृषि भूमि	0-6
				485	निजी	कृषि भूमि	0-9
				486	निजी	कृषि भूमि	1-18
				527	हरियाणा सरकार	कृषि विभाग	0-4
				528	हरियाणा सरकार	कृषि विभाग	0-5
				529	हरियाणा सरकार भूमि	कृषि विभाग	0-1
				532	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन बाग	0-7
				533	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन बाग	0-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				534	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन बाग	0-13
				535	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन बाग	1-16
				536	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	1-13
				537	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	0-4
				538	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन एच. एम. टी.	4-5
						कुल	54-11
							बीने-बीसवे
14	पंचकुला	पंचकुला	बिटना-153	301	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन आबादी	2-6
				305	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन आबादी	46-1
				315	निजी	कृषि भूमि	1-1
				316	निजी	कृषि भूमि	3-11
				317	निजी	कृषि भूमि	7-8
				318	निजी	कृषि भूमि	8-3
				319	निजी	कृषि भूमि	0-4/1/2
				320	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन चोवा	4-1
				321	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन चोवा	5-6
				323	पंचायत भूमि	चोवा पंचायत	0-1
				324	निजी	कृषि भूमि	0-1/1/2
				330	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0-9
				332	निजी	कृषि भूमि	3-1
				333	निजी	कृषि भूमि	0-1
				338	पंचायत भूमि	कृषि भूमि	4-16
				405	निजी	कृषि भूमि	6-14
				407	निजी	कृषि भूमि	6-18
				411	पंचायत भूमि	सरे आम	0-10
				854/412	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन जोहरी	1-12
				856/412	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन जोहरी	4-12
				413	निजी	कृषि भूमि	2-19
				414	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन पी. खबलू डी	5-10
				878/415	निजी	कृषि भूमि	4-17
				546	निजी	कृषि भूमि	0-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				547	निजी	कृषि भूमि	0-3
				580/548	निजी	कृषि भूमि	1-10
				881/548	निजी	कृषि भूमि	1-6
				549	निजी	कृषि भूमि	2-12
				882/548	निजी	कृषि भूमि	1-10
				550	निजी	कृषि भूमि	4-9
				553	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबल्यू. डी. बी एंड आरद्ध	6-5
				888/554	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबल्यू. डी. बी एंड आरद्ध	0-4
				555	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबल्यू. डी. बी एंड आरद्ध	0-1
				556	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबल्यू. डी. बी एंड आरद्ध	2-15
				557	निजी	कृषि भूमि	1-11
							बीमे-बीसवे
				896/558	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबल्यू. डी. बी एंड आरद्ध	2-4
				559	निजी	कृषि भूमि	2-12
				564	हरियाणा सरकार भूमि	सरकारी हाई स्कूल	1-5
				565	निजी	स्मार्ट बिल्डिंग	0-6
				566	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-5
				567	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				568	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				569	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				570	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-2
				571	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन पी. डबल्यू. डी.	0-6
				572	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन बेशक मवेशियाये	0-7
				573	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0-4
				574	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सडक	0-2
				575	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				576	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				577	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				578	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				579	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				580	निजी	गैर मुमकिन बाड़ा	0-3
				581	हरियाणा सरकार भूमि	पी. डबलू. डी. एड आरड	0-15
				582	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन स्कूल	1-17
				583	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन जोहरी	2-0
						कुल	156-3
							बीग-बीसवे
18	पंचकुला	कालका	कमुबला-146	33/1	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन पी. डबलू. डी.	1-18
				33/2	निजी	कृषि भूमि	2-2
				33/3	निजी	कृषि भूमि	0-7 1/2
				33/4	निजी	कृषि भूमि	3-11
				34/1	सरकारी भूमि	गैर मुमकिन पी. डबलू. डी.	0-4
				34/2	निजी	कृषि भूमि	0-19
				95/35	निजी	कृषि भूमि	0-3
				48/2	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	1-12
				48/2	निजी	कृषि भूमि	2-19
				48/3	निजी	कृषि भूमि	2-0
				49/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-1
				49/2	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0-2
				49/3	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0-2
				56	निजी	कृषि भूमि	0-9
				57/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-7
				57/2	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-9
				57/3	निजी	कृषि भूमि	2-10
				58/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-4
				58/2	निजी	कृषि भूमि	1-17
				59/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0-6
				59/2	निजी	कृषि भूमि	2-3
				62	निजी	कृषि भूमि	0-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				63/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--1
				63/2	निजी	कृषि भूमि	0--4
				64/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--5
				64/2	निजी	कृषि भूमि	0--1
				65/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--19
				65/2	निजी	कृषि भूमि	1--5
							बीगे-बीसवे
				66	निजी	कृषि भूमि	0--1
				67/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--6
				67/2/1	निजी	कृषि भूमि	0--12
				67/2/3	निजी	कृषि भूमि	0--1
				67/3	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--15
						कुल	29-1/1/2
							बीगे-बीसवे
16	पंचकुला	कालका	टीपरा 157	153/72	निजी	कृषि भूमि	1--11
				154/72/3	निजी	कृषि भूमि	3--11
				73/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--7
				73/2	आबादी	गैर मुमकिन आबादी	0--6
				74/1	निजी	कृषि भूमि	0--1
				84/2	पंचायत भूमि	गैर मुमकिन रास्ता	0--16
				159/156/85	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	14--14
				87	निजी	कृषि भूमि	1--4
				94/1	निजी	पोंड	6--6
				94/2	पी. डबलू. डी	सड़क	0--4
				95/1	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन सड़क	0--1
				95/2	निजी	गैर मुमकिन प्लाट	0--1
				96	हरियाणा सरकार भूमि	गैर मुमकिन कृषि भूमि	1--5
				97	निजी	गैर मुमकिन आबादी	0--12
				98	निजी	गैर मुमकिन आबादी	0--19



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				99/1	पंचायत भूमि	सरे आम रास्ता	4-7
				99/1	पंचायत भूमि	सरे आम रास्ता	11-0
				99/1/1	पंचायत भूमि	सरे आम रास्ता	6-0
				99/2	पी. डबलू डी	सड़क	9-1
				100	पी. डबलू डी	सड़क	6-0
				102	आबादी देह	गैर मुमिकन आबादी	0-5
				106/1	पंचायत भूमि	गैर मुमिकन सरे आम भूमि	22-10
				106/3	पी. डबलू डी	सड़क	1-17
				125	निजी	कृषि भूमि	0-7
				126	निजी	कृषि भूमि	0-11
				135	निजी	कृषि भूमि	2-3
				136/1	पी. डबलू डी	गैर मुमिकन सड़क	0-0
				136/2	आबादी	गैर मुमिकन आबादी	0-4
				154/72/1	पी. डबलू डी	गैर मुमिकन सड़क	0-17
						कुल	97-00

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11019/9/2003/भू.अ.]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2007

**S.O. 85(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 22 on the stretch of land from Km 42.00 to Km 62.961 (Zirakpur-Parwanoo Section, including Pinjore-Kalka-Parwanoo by-pass) in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Panchkula, in writing, and shall set out the grounds thereof

27/01/07-4

and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 42.00 km 62.961 (Zirakpur - Parwanoo Section) of the National Highway No. 22 in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village and H.B. No.	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
							K—M
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panchkula	Panchkula	(1) Raily— 369	16//17	Govt. of Haryana	G.M	0—5
				16//23	Govt. of Haryana	G.M	0—8
				16//24/1	Govt. of Haryana	G.M	0—11
				16//24/2	Govt. of Haryana	G.M	0—10
				16//28	Govt. of Haryana	G.M	1—13
				18//4	Govt. of Haryana	G.M	0—18
				27//15	Govt. of Haryana	G.M	1—2
				26//16	Govt. of Haryana	G.M	0—4
				27//17	Govt. of Haryana	G.M	0—12
				27//23	Govt. of Haryana	G.M	0—17
				27//24	Govt. of Haryana	G.M	0—9
				28//2/1	Govt. of Haryana	G.M	0—13
				28//2/2	Govt. of Haryana	G.M	0—17
				28//3	Govt. of Haryana	G.M	0—15
				28//8	Private	G.M	0—3
				28//9	Private	G.M	0—2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				28//10	Govt. of Haryana	G.M	1-16
				28//11	Govt. of Haryana	G.M	1-4
				28//12/1	Govt. of Haryana	G.M	0-13
				28//12/2	Govt. of Haryana	G.M	0-19
				28//20/1	Govt. of Haryana	G.M	0-5
				28//20/2	Govt. of Haryana	G.M	0-2
				28//26	Govt. of Haryana	G.M	0-8
				29//1	Govt. of Haryana	G.M	0-3
				29//2	Govt. of Haryana	G.M	0-17
				29//3	HUDA	G.M	0-6
				29//9	HUDA	G.M	0-9
				29//10	Govt. of Haryana	G.M	0-14
				29//11	HUDA	G.M	0-5
				30//6	Govt. of Haryana	G.M	0-7
				30//14/2	Govt. of Haryana	G.M	0-12
				30//15	Govt. of Haryana	G.M	0-17
				30//16/1	Govt. of Haryana	G.M	0-9
				30//16/2	Govt. of Haryana	G.M	0-5
				30//16/3	Govt. of Haryana	G.M	0-2
				30//16/6	Govt. of Haryana	G.M	0-3
				30//17/1	Private	G.M	1-4
				30//17/2	Govt. of Haryana	G.M	0-5
				30//18	Urban Estate	G.M	1-16
				30//22	Urban Estate	G.M	2-0
				30//24/1	Govt. Land	G.M	7-6
				30//25/2	Govt. Land	G.M	0-0
				32//3	Govt. Land	G.M	1-0
				26	Govt. Land	G.M	0-10
				56	Govt. of Haryana	G.M	16-13
				57	Govt. of Haryana	G.M	88-18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				68/68	Govt. of Haryana	G.M	0-2
				107	Govt. Land	G.M	0-2
						<b>G.TOTAL</b>	<b>140-11</b>
							<b>K-M</b>
			(2) Fatehpur--367	1/26	HUDA	G.M	3-11
				26/1/1	HUDA	G.M	0-3
				20	HUDA	G.M	0-6
				2/22	Haryana State	Bag Aabi	0-9
				5/1	Haryana State	G.M	0-16
				10	Haryana State	G.M	0-7
				6/13	HUDA	G.M	0-12
				15	HUDA	G.M	1-14
				26	HUDA	G.M	1-14
				7/2	HUDA	G.M	0-10
				33	HUDA	G.M	0-2
				34	HUDA	G.M	0-2
				36	Central Govt.	G.M. Road	28-6
				39	HUDA	G.M	0-4
						<b>G.TOTAL</b>	<b>38-16</b>
							<b>K-M</b>
			(3) Maheshpur--368	1/6	State Govt. Land	G.M Plot	0-6
				7	State Govt. Land	G.M Plot	0-2
				14	State Govt. Land	G.M Plot	0-4
				15	Common Land	G.M Plot	0-19
				16/1	Common Land	G.M Plot	1-3
				23	State Govt. Land	G.M Plot	0-15
				1/26	Private	G.M Jhundah	2-0
				8/3	State Govt. Land	G.M Plot	0-16
				4	Private	G.M Jhungiya	1-10
				8/7	Private	G.M	0-2
				8	HUDA	G.M	0-4
				9/25	Govt. of Haryana	G.M Crasher	0-7
				10/2	Govt. of Haryana	G.M Plot	0-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9	Govt. of Haryana	G.M Plot	0-1
				11	Govt. of Haryana	G.M Plot	0-2
				10/26	Govt. of Haryana	G.M Jakhira	0-5
				19/4	Govt. of Haryana	G.M	0-4
				7/7	Govt. of Haryana	G.M Plot	0-2
				10/26	Govt. of Haryana	G.M Jakhira	0-13
				26	Govt. of Haryana	G.M Road	0-17
				27	Govt. of Haryana	G.M Firm	0-3
				28	Govt. of Haryana	G.M Firm	0-2
				36	Govt. of Haryana	G.M	0-4
				37	Govt. of Haryana	G.M	0-1
				38	Govt. of Haryana	G.M	0-1
				39	Govt. of Haryana	G.M	0-4
				42	Govt. of Haryana	G.M Road	0-6
				43	Common Land	G.M Road	1-7
				48/1	Common Land	G.M Plot	0-4
				48/2	Common Land	G.M Plot	0-1
				49	Common Land	G.M Plot	0-6
				50	Common Land	G.M Plot	0-10
				51	State Govt. Land	G.M Plot	0-4
				52	State Govt. Land	G.M Plot	0-1
				53	Private	G.M House	0-8
				62	Private	G.M Plot	0-11
				84/1	Private	G.M House	0-4
				84/2	Private	G.M House	1-2
				97	Private	G.M Rasta	0-1
				99	Private	G.M Rasta	0-1
						<b>G.TOTAL</b>	<b>16-15</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<b>B--B</b>
			(4) Devi Nagar 384	177	Central Govt.	Railway	8-1
				178	State Govt.	G.M Road	43-7
				179	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-16
				182	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-4
				183	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-13
				184	Haryana Govt.	G.M HUDA	1-0
				204	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-4
				205	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-2
				206	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-0
				207	Haryana Govt.	G.M HUDA	0-16
				215	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-14
				255	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-1
				263	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-1
				277	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-2
				278	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-2
				279	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-7
				375	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-3
				384	Haryana Govt.	G.M. HUDA	0-3
				385	Haryana Govt.	G.M PWD	0-1
						<b>G.TOTAL</b>	<b>56-17</b>
							<b>K--M</b>
			(5) Majri -- 385	26/2	HUDA	G.M	0-2
				10/26	HUDA	G.M	3-5
				27	Private	G.M	0-4
				27/2/1	HUDA	G.M	1-16
				27/2/2	Govt./ Haryana	G.M	1-13
				27/2/3	HUDA	G.M	0-19
				12/27	HUDA	G.M	0-6
				28	Private	G.M	0-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				23	Govt. Haryana	G.M	36-16
				23	Govt. Haryana	G.M	3-9
				24	M.C	G.M	2-8
				25	Central Govt.	G.M	2-9
				44	HUDA	G.M	0-2
						<b>G.TOTAL</b>	<b>53-11</b>
							<b>B-B</b>
			(6) Kharak Mangoli 338	56	Central Govt.	G.M Railway Line	0-8
				58	Central Govt.	Contonment	0-6
				59	Central Govt.	Contonment	0-8
				60	Central Govt.	Contonment	0-8
				62	Central Govt.	Contonment	0-14
				303/166/4	Private	G.M House	0-4
				130	Central Govt.	G.M Contonment	7-3
				171	Central Govt.	G.M Contonment	1-19
				172	Central Govt.	G.M Contonment	59-6
				173	Central Govt.	G.M Contonment	0-19
				174	Central Govt.	G.M Contonment	0-8
				175	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				176	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				177	Central Govt.	G.M Contonment	0-10
				178	Central Govt.	G.M Contonment	0-4
				179	Central Govt.	G.M Contonment	0-13
				180	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				181	Central Govt.	G.M Contonment	0-8
				182	Central Govt.	G.M Contonment	0-4
				183	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				184	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				185	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				186	Central Govt.	G.M Contonment	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				187	Central Govt.	G.M Contonment	0-4
				188	Central Govt.	G.M Contonment	0-5
				189	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				190	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				191	Private	G.M Chunna Bhatti	0-1
				192	Private	G.M House	0-3
				193	Private	G.M Barani	0-7
				194	Private	G.M Barani	0-3
				468/445/309 /197/3/2/2/1	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/2/2/ 2/2/1/9	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/1/1/4	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/2/1/4/2	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/2/1/1/1	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/2/1/4/1	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/2/1/3	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/3/2/ 2/2/1/2	Haryana Govt.	HUDA	0-1
				468/445/2/2/ 2/10	Haryana Govt.	HUDA	0-6
				198	Panchayat Land	G.M	0-5
				199	Panchayat Land	G.M	1-18
				487/330/312 /200	Private	G.M Plot	0-5
				488/330/312 /200	Private	G.M Plot	0-6
				489/330/312 /200	Private	G.M Plot	0-13
				497/330/312 /200/1/4	Private	G.M Plot	0-2/1/2
				499/330/312 /200/1/1/2	Private	G.M Plot	0-4/1/2
				441/309/197	Private	G.M	0-2
				442/309/197	Private	G.M	0-4
				443/309/197	Private	G.M	0-2
				444/309/197	Private	G.M	0-2
				242	Central Govt.	G.M Road	40-13



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				243	Central Govt.	G.M Contonment	3-2
				245	Central Govt.	G.M Contonment	0-9
				246	Central Govt.	G.M Contonment	4-14
				259	Central Govt.	G.M Contonment	2-4
						<b>G.TOTAL</b>	<b>132-17</b>
							<b>B-B</b>
			(7) Surajpur - 389	602/23/1	Central Govt.	Contonment	0-1
				603/23/1	Central Govt.	Contonment	5-1
				25	Central Govt.	Contonment	0-9/1/2
				26	Central Govt.	Contonment	0-15
				27	Central Govt.	Contonment	0-18
				28	Central Govt.	Contonment	0-6
				29	Central Govt.	Contonment	1-9
				30	Central Govt.	Contonment	1-14
				32	Central Govt.	Contonment	3-5
				90	Central Govt.	Contonment	0-6
				92	Central Govt.	Contonment	0-3
				95	Central Govt.	Contonment	0-6
				97	Central Govt.	Contonment	0-6/1/2
				100	Central Govt.	Contonment	0-6
				101	Central Govt.	Contonment	0-4
				106	Central Govt.	Contonment	0-7
				125	Central Govt.	Contonment	0-7
				126	Central Govt.	Contonment	0-15
				127	Central Govt.	Contonment	0-4
				128	Central Govt.	Contonment	0-16
				134	Central Govt.	Contonment	0-9
				136	Central Govt.	Contonment	0-5
				606/137/138	Central Govt.	Contonment	0-6
				139	Central Govt.	Contonment	0-3
				140	Central Govt.	Contonment	0-1

27/4/07-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				145	Central Govt.	Contonment	0-4
				148	Central Govt.	Contonment	0-2
				162	Central Govt.	Contonment	0-1/2
				168	Central Govt.	Contonment	0-4
				172	Central Govt.	Contonment	0-4 1/2
				175	Central Govt.	Contonment	0-12
				176	Central Govt.	Contonment	0-1
				180	Central Govt.	Contonment	0-4 1/2
				181	Central Govt.	Contonment	0-3
				182	Central Govt.	Contonment	0-2
				187	Central Govt.	Contonment	0-3
				188	Central Govt.	Contonment	0-3
						<b>G.TOTAL</b>	<b>21-7 1/2</b>
							<b>B---B</b>
			(8) Dara Kharoni 390	882	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				883	Central Govt.	G.M Contonment	1-4
				888	Central Govt.	G.M Contonment	0-2
				890	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				905	Central Govt.	G.M Contonment	0-1
				906	Central Govt.	G.M Contonment	0-5 1/2
				907	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				909	Central Govt.	G.M Contonment	0-4
				910	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				911	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				912	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				914	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				917	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				918	Central Govt.	G.M Road	0-7 1/2
				919	Central Govt.	G.M Road	1-5
				921	Central Govt.	G.M Road	0-2
				922	Central Govt.	G.M Road	0-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				923	Central Govt.	G.M Road	0-7
				924	Central Govt.	G.M Contonment	0-16
				925	Central Govt.	G.M Contonment	0-2
				926	Central Govt.	G.M Contonment	1-5
				927	Central Govt.	G.M Contonment	0-2
				928	Central Govt.	G.M Contonment	0-2
				930	Central Govt.	G.M Contonment	0-1/1/2
				931	Central Govt.	G.M Contonment	0-10
				933	Central Govt.	G.M Contonment	0-7
				934	Central Govt.	G.M Contonment	0-2
				935	Central Govt.	G.M Contonment	0-9
				936	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				937	Central Govt.	G.M Contonment	0-11
				938	Central Govt.	G.M Contonment	0-0
				942	Central Govt.	G.M Contonment	0-5
				943	Central Govt.	G.M Contonment	3-0
				945	Central Govt.	G.M Contonment	71-4
				949	Central Govt.	G.M Contonment	1-8
				950	Central Govt.	G.M Contonment	0-17/1/2
				980	Central Govt.	G.M Contonment	2-2
				1007	Central Govt.	G.M Contonment	0-4
				1128/1018	Central Govt.	G.M Contonment	1-1
				1129/1018	Central Govt.	G.M Contonment	0-13
				1019	Central Govt.	G.M Contonment	0-2/1/2
				1020	Central Govt.	G.M Contonment	1-8
				1021	Central Govt.	G.M Contonment	0-7
				1023	Central Govt.	G.M Contonment	0-10/1/2
				1024	Central Govt.	G.M Contonment	0-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1029	Central Govt.	G.M Contonment	0-8
				1030	Central Govt.	G.M Contonment	0-7
				1031	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				1032	Central Govt.	G.M Contonment	1-1
				1036	Central Govt.	G.M Contonment	0-11
				1037	Central Govt.	G.M Contonment	2-9
				1041	Central Govt.	G.M Contonment	0-8
				1044	Central Govt.	G.M Contonment	2-8
				1045	Central Govt.	G.M Contonment	1-8
				1174/1060	Central Govt.	G.M Contonment	1-18
				1062	Central Govt.	G.M Contonment	0-6,
				1065	Central Govt.	G.M Contonment	1-0
				1066	Central Govt.	G.M Contonment	0-3
				1067	Central Govt.	G.M Contonment	1-8
				1068	Central Govt.	G.M Contonment	0-6
				1069	Central Govt.	G.M Contonment	0-14
				1070	Central Govt.	G.M Contonment	0-17
				1172/660	Central Govt.	G.M Contonment	0-10
						G.TOTAL	110-7/1/2
							<del>B-8</del>
			(9) Chandimandir 391	139	Private	Barani	0-3
				148	Provincial	G.M Road	80-2
				152	Private	G.M River	0-2
				153	Private	Kadeem	0-3
				157	Private	Kadeem	0-18
				159	Panchayat Land	G.M Pahar	0-3
				160	Private	Banjar	0-8
				161	Private	Kadeem	0-8/1/2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				162	Private	G.M Plot	0-1
				163	Private	G.M House	0-14
				164	Private	G.M Plot	0-14
				165	Private	G.M Plot	0-15
				166	Private	G.M Plot	0-3
				167	Private	G.M Plot	1-4
				172	Private	G.M Plot	1-2
				173	Private	G.M Plot	0-10
				176	Private	G.M Factory	0-1
				177	Private	G.M	1-12
				178	Private	G.M Bhag	2-2
				203	Private	G.M Cho.	0-3
				204	Private	G.M Cho.	0-15
				205	Private	G.M House	0-1
				207	Private	G.M Plot	0-15
				210	Private	G.M Plot	0-16
				214	Private	G.M Plot	0-7
				510/225	Private	G.M Plot	7-16
				226	Private	G.M Plot	1-10
				227/1	Haryana Govt.	G.M Tower	0-1
				227/2	Haryana Govt.	G.M Tower	0-1
				227/3	Private	G.M House	0-3
				227/4	Private	G.M House	0-3
				228/1	Private	G.M Shop	0-4
				228/2	Private	G.M House	0-3
				229	Private	G.M Plot	0-12
				230	Private	G.M Plot	0-6
				231	Private	G.M Plot	0-5
				232/1	Private	G.M Plot	0-3
				232/2	Private	G.M Plot	0-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				233	Private	G.M Plot	1-3
				247	Common	G.M Kool	0-4
				262	Private	Agriculture	1-14
				263	Private Land	Agriculture	0-9
				264	Private Land	Agriculture	0-8
				578/537/332	Private Land	Daradh Barani	0-7/1/2
				383	Private	G.M House	0-4
				384	Private	G.M Bhatta	0-9
				385	Private	G.M Plot	0-4
				388	Private	Agriculture	0-2
				389	Private	G.M Plot	0-1
				390	Private	G.M Plot	0-5
				391	Private Land	Agriculture	0-5
				392	Private	G.M House	0-4
				393	Panchayat Land	G.M Petrol Pump	0-8
				402	Govt. Land	PWD/ B & R	0-4
				403	Private	G.M House	0-9
				404	Private	G.M Bhatiyar	0-3
				405	Central Govt.	G.M Cantonment	0-9
				406	Central Govt.	G.M Cantonment	0-2
				478	Central Govt.	G.M Cantonment	2-17
				485	Central Govt.	G.M Cantonment	0-6
				486	Central Govt.	G.M Cantonment	0-16/1/2
				487	Central Govt.	G.M Cantonment	1-10
				488	Central Govt.	Railway	3-1
				489	Private	G.M Bara	1-19
						<b>G.TOTAL</b>	<b>123-11/1/2</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<del>B-8</del>
		2. Kalika	(1) Rampur Seuri — 106	21	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-11
				34	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-1/2
				37	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-1
				172	State Govt. Land	G.M HMT	0-11
				181	Panchayat Land	G.M Choki	0-4
				213	Private	G.M Bara	0-1
				214	Common Land	G.M Rasta	0-0
				215	Private	G.M Bara	0-2
				221	Common Land	G.M Rasta	0-1
				222	Private	G.M Bara	0-2/1/2
				229	Govt. of Haryana	G.M Road	0-6
				230	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-4
				234	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-12/1/2
				235	State Govt. Land	G.M HMT	1-15
				333	Private	Agriculture	0-18
				335	Private	Agriculture	0-18
				336	Common Land	G.M Rasta	0-5
				337	Private	Agriculture	0-16
				338	Private	Agriculture	0-10
				339	Private	Agriculture	0-6
				343	Private	Agriculture	0-8
				347	Private	Agriculture	0-5
				348	Private	Agriculture	0-6/1/2
				349	Private	Agriculture	0-3
				352	Private	Agriculture	0-1
				353	Private	Agriculture	0-2
				354	Private	G.M Hotel	0-2
				356	Private	G.M Hotel	0-3
				359/1	Private	G.M House	0-2
				359/2	Private	G.M Plot	B0-2B
				359/3	Private	G.M Plot	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				359	Private	G.M House	0-8
				361	Private	G.M Banjar Kadeem	0-4/1/2
				362	Private	Agriculture	0-4
				363	Private	Agriculture	0-3/1/2
				363	Private	Agriculture	0-2
				364	Private	Agriculture	0-3
				365	Private	Agriculture	0-15
				367	Panchayat Land	G.M Dhaba	0-5
				524/466	Panchayat Land	G.M House	14-13
				562/526/469	Govt. of Haryana	PWD (B&R)	0-3
						<b>G.TOTAL</b>	<b>27-3</b>
							<b>B-B</b>
			(2) Milk --111	4	State of Haryana	G.M. HMT	1-8
				15	State of Haryana	G.M. HMT	1-7
				16	State of Haryana	G.M. HMT	0-4
				17	State of Haryana	G.M. HMT	0-3
				18	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				19	State of Haryana	G.M. HMT	0-8
				39	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				40	State of Haryana	G.M. HMT	0-2
				42	State of Haryana	G.M. HMT	0-3
				43	State of Haryana	GM/HMT	0-3
				44	State of Haryana	G.M. HMT	0-0
				60	State of Haryana	G.M. HMT	0-2
				61	State of Haryana	G.M. HMT	0-0
				64	State of Haryana	G.M. HMT	0-7
				65	State of Haryana	G.M. HMT	0-2
				71	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				72	State of Haryana	G.M. HMT	1-2



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				76	State of Haryana	G.M. HMT	0-6
				82	State of Haryana	G.M. HMT	0-9
				83	State of Haryana	G.M. HMT	0-13/1/2
				86	State of Haryana	G.M. HMT	0-3/1/2
				87	State of Haryana	G.M. HMT	0-3
				99	State of Haryana	G.M. HMT	0-12
				100	State of Haryana	G.M. HMT	0-2
				101	State of Haryana	G.M. HMT	0-4
				102	State of Haryana	G.M. HMT	0-4/1/2
				111	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				116	State of Haryana	G.M. HMT	0-9
				117	State of Haryana	G.M. HMT	0-12
				118	State of Haryana	G.M. HMT	0-11
				121	State of Haryana	G.M. HMT	0-7
				122	State of Haryana	G.M. HMT	0-11
				123	State of Haryana	G.M. HMT	0-11
				125	State of Haryana	G.M. HMT	0-10
				126	State of Haryana	G.M. HMT	0-8
				127	State of Haryana	G.M. HMT	0-8
				130	State of Haryana	G.M. HMT	0-5
				131	State of Haryana	G.M. Delhi-Shimla General Road	75-5
				135	State of Haryana	G.M. HMT	0-17
				136	State of Haryana	G.M. HMT	0-2
				137	State of Haryana	G.M. HMT	0-4
				138	State of Haryana	G.M. HMT	0-4
				139	State of Haryana	G.M. HMT	0-5
				141	State of Haryana	G.M. HMT	0-12

27/6/07-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				142	State of Haryana	G.M. HMT	0-3
				143	State of Haryana	G.M. HMT	0-3
				144	State of Haryana	G.M. HMT	0-15
				145	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				149	State of Haryana	G.M. HMT	0-10
				150	State of Haryana	G.M. HMT	0-12
				153	State of Haryana	G.M. HMT	0-5
				156	State of Haryana	G.M. HMT	0-5
				157	State of Haryana	G.M. HMT	0-4
				161	State of Haryana	G.M. HMT	0-15/1/2
				162	State of Haryana	G.M. HMT	0-7
				163	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				164	State of Haryana	G.M. HMT	0-13
				165	State of Haryana	G.M. HMT	0-16
				167	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				169	State of Haryana	G.M. HMT	0-17
				173	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				174	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				175	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				176	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				177	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				186	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				187	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				188	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				189	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				190	State of Haryana	G.M. HMT	0-1
				196	State of Haryana	G.M. HMT	0-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				197	State of Haryana	G.M. HMT	0-5
				198	State of Haryana	G.M. HMT	0-6
				200	State of Haryana	G.M. HMT	1-0
				201	State of Haryana	G.M. HMT	0-7 1/2
				202	State of Haryana	G.M. HMT	2-15
				205	State of Haryana	G.M. HMT	5-14
						<b>G.TOTAL</b>	<b>108-4 1/2</b>
							<b>B-B</b>
			<b>(3) Bagiana-- 112</b>	73	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	0-3
				74	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	0-1
				76	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	5-15
				77	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	1-15
				78	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	0-15
				79	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	4-10
				80	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	17-5
				81	Haryana Govt. (HMT)	H.M.T	0-1
						<b>G.TOTAL</b>	<b>30-5</b>
							<b>B-B</b>
			<b>(4) Pinjore --- 113</b>	368	Private	Agriculture	1-13
				369	Panchayat Land	Common Land	0-6
				370	Private	Agriculture	2-16
				372	Private	Agriculture	2-4
				373	Private	Agriculture	2-14
				375	Private	Agriculture	2-18
				376	Private	Agriculture	0-13
				377	Private	Agriculture	1-1
				378	Sare AAM	G.M Rasta	0-2
				379	Private	Agriculture	0-3
				380	Haryana Govt. Land	G.M Garden	0-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				381	Private	Agriculture	0-17
				382	Private	Agriculture	0-14
				397	Private	Agriculture	1-7
				398	Private	Agriculture	1-10
				401	Private	Agriculture	0-19
				402	Private	Agriculture	0-14
				403	Private	Agriculture	0-15
				404	Private	Agriculture	0-10
				406	Private	Agriculture	0-19
				407	Private	Agriculture	0-9
				408	Punjab Wakaf Board	Punjab Wakaf Board	0-16
				413	Private	Agriculture	0-1
				412	Common Land	G.M Rasta	0-9
				414	Punjab Wakaf Board	Punjab Wakaf Board	0-6
				415	Punjab Wakaf Board	Punjab Wakaf Board	1-0
				416	Punjab Wakaf Board	Punjab Wakaf Board	1-0
				417	Private	Agriculture Land	0-5
				418	Private	Agriculture Land	1-12
				421	Private	G.M Baag-Chahi	0-12
				432	Govt. of Haryana	Agriculture Deptt.	11-11
				433	Private	G.M Huda Road	0-5
				434	Private	G.M Kapra Rangne ki Jaga	0-5
				435	MC Pinjore	Shamshan Ghat	3-5
				483	Private	Agriculture	0-6
				485	Private	Agriculture	0-9
				486	Private	Agriculture	1-18
				527	Govt. of Haryana	Agriculture Department	0-4
				528	Govt. of Haryana	Agriculture Department	0-5
				529	Govt. of Haryana	Agriculture Department	0-1
				532	Govt. of Haryana	G.M Garden	0-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				533	Govt. of Haryana	G.M Garden	0-5
				534	Govt. of Haryana	G.M Garden	0-13
				535	Govt. of Haryana	G.M Fruit Garden	1-16
				536	Govt. of Haryana	G.M HMT	1-13
				537	Govt. of Haryana	G.M HMT	0-4
				538	Govt. of Haryana	G.M HMT	4-5
						G.TOTAL	54-11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							B-8
			(5) Bkna-153	301	Panchayat Land	G.M Abadi	2-6
				305	Panchayat Land	G.M Abadi	46-1
				315	Private	Agriculture	1-1
				316	Private	Agriculture	3-11
				317	Private	Agriculture	7-8
				318	Private	Agriculture	8-3
				319	Private	Agriculture	0-4 1/2
				320	Panchayat Land	G.M Choe.	4-1
				321	Panchayat Land	G.M Choe.	5-6
				323	Panchayat Land	Choe. Panchayat	0-1
				324	Private	Agriculture	0-1 1/2
				330	Panchayat Land	G.M Rasta	0-9
				332	Private	Agriculture	3-1
				333	Private	Agriculture	0-1
				338	Panchayat Land	Agriculture	4-16
				405	Private	Agriculture	6-14
				407	Private	Agriculture	6-18
				411	Panchayat Land	Sare AAM	0-10
				854/412	Panchayat Land	G.M Johari	1-12
				856/412	Panchayat Land	G.M Johari	4-12
				413	Private	Agriculture	2-19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				414	Govt. of Haryana Land	G.M.PWD	5-10
				878/415	Private	Agriculture	4-17
				546	Private	Agriculture	0-2
				547	Private	Agriculture	0-3
				580/548	Private	Agriculture	1-10
				881/548	Private	Agriculture	1-6
				549	Private	Agriculture	2-12
				882/548	Private	Agriculture	1-10
				550	Private	Agriculture	4-9
				553	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	6-5
				888/554	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	0-4
				555	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	0-1
				556	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	2-15
				557	Private	Agriculture	1-11
				896/558	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	2-4
				559	Private	Agriculture	2-12
				564	Govt. of Haryana Land	Govt. High School	1-5
				565	Private	Plot	0-6
				566	Private	G.M Bara	0-5
				567	Private	G.M Bara	0-3
				568	Private	G.M Bara	0-3
				569	Private	G.M Bara	0-3
				570	Private	G.M Bara	0-2
				571	Govt. of Haryana Land	G.M PWD	0-6
				572	Panchayat Land	G.M Cattle Ground	0-7
				573	Panchayat Land	G.M Rasta	0-4
				574	Govt. of Haryana Land	G.M Road	0-2
				575	Private	G.M Bara	0-3
				576	Private	G.M Bara	0-3
				577	Private	G.M Bara	0-3
				578	Private	G.M Bara	0-3
				579	Private	G.M Bara	0-3
				580	Private	G.M Bara	0-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				581	Govt. of Haryana Land	PWD (B&R)	0-15
				582	Gram Panchayat	G.M School Land	1-17
				583	Gram Panchayat	G.M Johari	2-0
						<b>G.TOTAL</b>	<b>156-3</b>
							<del>9-8</del>
			<b>(6) Kanguwala 146</b>	33/1	Govt. Land	G.M PWD	1-18
				33/2	Private Land	Agriculture Land	2-2
				33/3	Private Land	Agriculture Land	0-7 1/2
				33/4	Private Land	Agriculture Land	3-11
				34/1	Govt. Land	G.M PWD	0-4
				34/2	Private Land	Agriculture Land	0-19
				95/35	Private Land	Agriculture Land	0-3
				48/2	Govt. of Haryana	G.M Road	1-12
				48/2	Private Land	Agriculture Land	2-19
				48/3	Private Land	Agriculture Land	2-0
				49/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-1
				49/2	Private Land	G.M Rasta	0-2
				49/3	Private Land	G.M Rasta	0-2
				56	Private Land	Agariculture	0-9
				57/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-7
				57/2	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-9
				57/3	Private	Agariculture	2-10
				58/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-4
				58/2	Private	Agariculture	1-17
				59/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-6
				59/2	Private	Agariculture	2-3
				62	Private	Agariculture	0-6
				63/1	Govt of Haryana Land	G.M Road	0-1
				63/2	Private	Agriculture Land	0-4
				64/1	Govt of Haryana Land	G.M Road	0-5
				64/2	Private Land	Agriculture	0-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				65/1	Govt. of Haryana	G.M Road	0-19
				65/2	Private	Agriculture	1-5
				66	Private	Agriculture	0-1
				67/1	Govt of Haryana Land	G.M Road	0-6
				67/2/1	Private Land	Agriculture Land	0-12
				67/2/3	Private Land	Agriculture Land	0-1
				67/3	Govt of Haryana Land	G.M. Road	0-15
						<b>G.TOTAL</b>	<b>29-1/1/2</b>
							<b>B-B</b>
			<b>(7) Tipra 157</b>	153/72	Private	Agriculture	1-11
				154/72/3	Private	Agriculture	3-11
				73/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-7
				73/2	Abadi Deh	G.M Abadi	0-6
				74/1	Private	Agriculture	0-1
				84/2	Panchayat	G.M Rasta	0-16
				159/156/85	Haryana Govt. Land	G.M Road	14-14
				87	Private Land	Agriculture	1-4
				94/1	Private Land	Pond	6-6
				94/2	PWD	Road	0-4
				95/1	Haryana Govt. Land	G.M Road	0-1
				95/2	Private	G.M Plot	0-1
				96	Panchayat Land	G.M Agriculture	1-5
				97	Private Land	G.M Abadi	0-12
				98	Private Land	G.M Abadi	0-19
				99/1	Panchayat Land	Common Land	4-7
				99/1	Panchayat Land	Common Land	11-0
				99/1/1	Panchayat Land	Common Land	6-0
				99/2	PWD	Road	9-1
				100	PWD	Road	6-0
				102	Abadi Deh	G.M Abadi	0-5
				106/1	Panchayat Land	G.M Common Land	22-10
				106/3	PWD	Road	1-17
				125	Private Land	Agriculture	0-7
				126	Private Land	Agriculture	0-11



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				135	Private Land	Agriculture	2-3
				136/1	PWD	G.M Road	0-0
				136/2	Abadi Deh	G.M Abadi	0-4
				154/72/1	PWD	Road	0-17
						<b>G.TOTAL</b>	<b>97-0</b>

[F.No. NHAI/BOT/11019/2003/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

**का.आ. 86(अ).—**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के 39.965 कि.मी. से 41.945 कि.मी. (जीरकपुर-परवानू सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप मंडल मजिस्ट्रेट, डेराबस्सी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

27/01/07-7



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				687/627790	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				592/1972	निजी	गैर मुनाफिन	0-4 1/2
				686/92	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				102	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				596/104	निजी	गैर मुनाफिन	0-9
				710/598/106	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				711/598/106	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				936/709/600/107	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				935/709/600/107	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				944/807/620/144	निजी	गैर मुनाफिन	0-5 1/2
				943/808/620/144	निजी	गैर मुनाफिन	0-4
				938-944/807- 808/620/144	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				942/806/141	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				619/143	निजी	गैर मुनाफिन	0-5
				672/618/145	निजी	बराबरी	0-15
				673/618/145	निजी	गैर मुनाफिन	0-1
				670/146	निजी	बराबरी	0-2
				615/147	निजी	बराबरी	0-9
				617/148	निजी	गैर मुनाफिन	0-9
				694/610/149	निजी	गैर मुनाफिन	0-6
				695/610/149	निजी	बराबरी	0-9
				612/150	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				608/152	निजी	बराबरी	0-10
				847/604/153	निजी	गैर मुनाफिन	0-5
				602/158	निजी	गैर मुनाफिन	0-14
				157	पंचायत	गैर मुनाफिन	0-5
				607/159	निजी	गैर मुनाफिन	0-8
				948/192	निजी	गैर मुनाफिन	0-0
				668/594/193	निजी	गैर मुनाफिन	0-4
				712/669/594/193	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				713/669/594/193	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				664/592/195	निजी	गैर मुनाफिन	0-6
				665/592/195	निजी	गैर मुनाफिन	0-5
				663/590/196	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				309	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				310	निजी	गैर मुनाफिन	0-10
				866/312	निजी	गैर मुनाफिन	0-8
				867/312	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				314	निजी	गैर मुनाफिन	0-8
				868/316	निजी	गैर मुनाफिन	0-4
				869/316	निजी	गैर मुनाफिन	0-1/2
				952/319	निजी	गैर मुनाफिन	0-0
				953/319	निजी	गैर मुनाफिन	0-4
				954/320	निजी	गैर मुनाफिन	0-0
				955/320	निजी	गैर मुनाफिन	0-2
				956/320	निजी	गैर मुनाफिन	0-0
				957/320	निजी	गैर मुनाफिन	0-0
				958/320	निजी	गैर मुनाफिन	0-1
				321	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				322/1	सरकारी	गैर मुनाफिन	0-2
				322/2	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				323/1	सरकारी	गैर मुनाफिन	0-1
				323/2	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				737/325	निजी	गैर मुनाफिन	0-9 1/2
				738/325	निजी	गैर मुनाफिन	0-1/2
				696/327	निजी	गैर मुनाफिन	0-3 1/2
				870/697/327	निजी	गैर मुनाफिन	0-3
				871/697/327	निजी	गैर मुनाफिन	0-3 1/2
				328/1	निजी	गैर मुनाफिन	0-6
				328/2	निजी	गैर मुनाफिन	0-4 1/2
				329/1	निजी	गैर मुनाफिन	0-4
				329/2	रेलवे लाईन	गैर मुनाफिन	0-1
				580/330	निजी	गैर मुनाफिन	0-7
				331	नगर पंचायत	गैर मुनाफिन रोड	0-1 1/2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				585/332	निजी	चाही	0---2
				14	सरकारी	गैर मुमकिन रोड	0---2
				306	सरकारी	गैर मुमकिन रेलवे लाईन	0---17
							एकड़ बीग-बीसवे
						कुल	4--0--12

[फा. सं. भाराप्रा/बीओटी/11019/9/2003/भू.अ.]

प्रभाकर, उप-सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2007

**S.O. 86(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 22 on the stretch of land from Km 39.965 to Km 41.945 (Zirakpur - Parwanoo Section) in District Sahibzada Ajit Singh Nagar in the State of Punjab hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Magistrate, Derabassi, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 39.965 to Km 41.945 (Zirakpur - Parwanoo Section) of the National Highway No. 22 in the State of Punjab.**

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village and H.B. No.	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	B-B (8)
1	Sahib Jade Ajit Singh Nagar	Dera Bassi	(1) Baltana H.B. No. 47	1068/424	Central Govt.	Gair Mumkin	0-2
				1072/427	Private	Gair Mumkin	0-3
				1298/1292-93/1073/430	Private	Gair Mumkin	0-7
				1297/1073/430	Private	Gair Mumkin	0-1
				1299/1076/431	Private	Gair Mumkin	0-1
				1300/1076/431	Private	Gair Mumkin	0-1
				1301/1076/431	Private	Gair Mumkin	0-6
				1075/431	Central Govt.	Gair Mumkin	0-3
				1080/434	Central Govt.	Gair Mumkin	0-8
				1080/434	Private	Gair Mumkin	0-3
				1413/1309/1077/433	Private	Gair Mumkin	0-2
				1310/1077/433	Private	Gair Mumkin	0-3
				1084/436	Private	Gair Mumkin	0-6
				1081/435	Central Govt.	Gair Mumkin	0-6
				1094/447	Central Govt.	Gair Mumkin	0-2
				446	Central Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-1
				1090/439	Central Govt.	Gair Mumkin	0-6
				1414/1086/437	Private	Gair Mumkin	0-3
				1087/438	Private	Gair Mumkin	0-2
				1088/438	Central Govt.	Gair Mumkin	0-4
				1098/451	Central Govt.	Gair Mumkin	0-4
				1098/452	Central Govt.	Gair Mumkin	0-9
				1415/1180/437	Private	Gair Mumkin	0-8
							A-B-B
						TOTAL	0-4-11
			(2) Dhakoli H.B. No. 48	51	Private	Gair Mumkin	0-2
				649/560/53	Private	Gair Mumkin	0-3
				650/560/53	Private	Gair Mumkin	0-5
				563/54	Private	Gair Mumkin	0-1
				584/56	Private	Gair Mumkin	0-9
				567/57	Private	Chahi	0-9
				568/58	Private	Gair Mumkin	0-7
				568/58	Private	Gair Mumkin	0-5
				571/59	Private	Gair Mumkin	0-2
				926/672/68	Private	Chahi/Gair Mumkin	0-3
				925/672/68	Private	Gair Mumkin	0-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				927/672/68	Private	Gair Mumkin	0---1
				928/672/68	Private	Gair Mumkin	0---2
				929/672/68	Private	Gair Mumkin	0---1
				678/574/69	Private	Gair Mumkin	0---1
				679/574/69	Private	Gair Mumkin	0---9
				930/70	Private	Gair Mumkin	0---1
				932/70	Private	Gair Mumkin	0---3
				690/621/82	Private	Gair Mumkin	0---1
				691/621/82	Private	Gair Mumkin	0---7
				835/702/624 /83	Private	Gair Mumkin	0---8
				834/702/624 /83	Private	Gair Mumkin	0---1
				703/624/83	Private	Gair Mumkin	0---1
				685/627/89	Private	Gair Mumkin	0---2/1/2
				687/627/90	Private	Gair Mumkin	0---7
				592/197/2	Private	Gair Mumkin	0---4/1/2
				686/92	Private	Gair Mumkin	0---7
				102	Private	Gair Mumkin	0---2
				596/104	Private	Gair Mumkin	0---9
				710/598/106	Private	Gair Mumkin	0---2
				711/598/106	Private	Gair Mumkin	0---7
				936/709/600 /107	Private	Gair Mumkin	0---3
				935/709/600 /107	Private	Gair Mumkin	0---3
				944/808/620 /144	Private	Gair Mumkin	0---5/1/2
				943/808/620 /144	Private	Gair Mumkin	0---4
				938-944/807 --- 808/620/144	Private	Gair Mumkin	0---7
				942/806/141	Private	Gair Mumkin	0---2
				619/143	Private	Gair Mumkin	0---5
				672/618/145	Private	Barani	0---15
				673/618/145	Private	Gair Mumkin	0---1
				670/146	Private	Barani	0---2
				615/147	Private	Chahi Bag	0---9
				617/148	Private	Gair Mumkin	0---9
				694/610/149	Private	Gair Mumkin	0---6
				695/610/149	Private	Barani	0---9
				612/150	Private	Gair Mumkin	0---3
				608/152	Private	Chahi	0---10
				847/604/153	Private	Gair Mumkin	0---5
				602/158	Private	Gair Mumkin	0---14
				157	Panchayat	Gair Mumkin	0---5
				607/159	Private	Gair Mumkin	0---8
				948/192	Private	Gair Mumkin	0---0
				668/594/193	Private	Gair Mumkin	0---4
				712/669/594 /193	Private	Gair Mumkin	0---2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				713/669/594/193	Private	Gair Mumkin	0—3
				664/592/195	Private	Gair Mumkin	0—6
				665/592/195	Private	Gair Mumkin	0—5
				663/590/196	Private	Gair Mumkin	0—3
				309	Private	Gair Mumkin	0—7
				310	Private	Gair Mumkin	0—10
				866/312	Private	Gair Mumkin	0—8
				867/312	Private	Gair Mumkin	0—2
				314	Private	Gair Mumkin	0—8
				868/316	Private	Gair Mumkin	0—4
				869/316	Private	Gair Mumkin	0—1/2
				952/319	Private	Gair Mumkin	0—0
				953/319	Private	Gair Mumkin	0—4
				954/320	Private	Gair Mumkin	0—0
				955/320	Private	Gair Mumkin	0—2
				956/320	Private	Gair Mumkin	0—0
				957/320	Private	Gair Mumkin	0—0
				958/320	Private	Gair Mumkin	0—1
				321	Private	Gair Mumkin	0—3
				322/1	Govt.	Gair Mumkin	0—2
				322/2	Private	Gair Mumkin	0—3
				323/1	Govt.	Gair Mumkin	0—1
				323/2	Private	Gair Mumkin	0—3
				737/325	Private	Gair Mumkin	0—9/1/2
				738/325	Private	Gair Mumkin	0—1/2
				696/327	Private	Gair Mumkin	0—3/1/2
				870/697/327	Private	Gair Mumkin	0—3
				871/697/327	Private	Gair Mumkin	0—3/1/2
				328/1	Private	Gair Mumkin	0—6
				328/2	Private	Gair Mumkin	0—4/1/2
				329/1	Private	Gair Mumkin	0—4
				329/2	Railway Line	Gair Mumkin	0—1
				580/330	Private	Gair Mumkin	0—7
				331	Nagar Panchayat	Gair Mumkin Road	0—1/1/2
				585/332	Private	Chahi	0—2
				14	Govt.	Gair Mumkin Road	0—2
				306	Govt.	Gair Mumkin Railway Line	0—17
							A—B—B
						TOTAL	4—0—12

[F. No. NHAI/BOT/11019/9/2003/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.